



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

4 नवम्बर 2011

संख्या 44

1. भारतीय रिज़र्व बैंक — देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	29 अक्टूबर	21 अक्टूबर	28 अक्टूबर #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	8,61,913	9,84,055	9,98,835	14,780	1,36,922
संचलन में नोट	8,61,891	9,84,038	9,98,829	14,790	1,36,938
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	22	16	6	-10	-16
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	36,559	101	100	—	-36,458
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	41	42	42	—	1
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,49,160	3,70,429	3,50,870	-19,559	1,711
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,852	3,795	3,710	-85	-142
अन्य बैंक	15,261	16,456	17,081	625	1,820
अन्य	13,390	10,585	10,835	250	-2,554
अन्य देयताएं	3,44,728	5,73,454	5,51,291	-22,163	2,06,563
कुल देयताएं / आस्तियां	16,24,902	19,58,917	19,32,764	-26,153	3,07,862
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	11,99,656	14,16,451	13,90,514	-25,937	1,90,858
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	96,510	1,40,266	1,40,266	—	43,757
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	3,13,967	3,77,839	3,55,482	-22,356	41,515
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	16,428	36,153	19,725	36,153
राज्य सरकारें	1,439	433	345	-88	-1,094
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5,576	1,068	3,745	2,677	-1,831
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	30	—	—	—	-30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	308	612	611	—	303
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	1,320	1,320	1,320	—	—
अन्य आस्तियां	6,097	4,500	4,327	-172	-1,770

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइएफएससी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	28 अक्टूबर 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसंबर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	15,64,453	320,390	-26,298	2,032	2,03,439	15,572	2,32,099	23,056	2,37,355	22,434
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	13,88,659	284,445	-25,890	1,931 *	1,63,776	10,115	1,88,582	16,631	1,90,117	15,352
(ख) स्वर्ण \$	1,40,266	28,667	—	—	37,694	5,695	39,580	6,197	43,756	6,999
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	22,485	4,606	-258	64	2,084	37	-268	-472	-595	-576
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	13,043	2,672	-150	37	-115	-275	4,205	700	4,077	659

- + आइएफएससी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹1,855 करोड़ / 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।
 * अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।
 ** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।
 @ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।
 \$ इसमें ₹31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	21 अक्टू. 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	69,285	-775	-644	-4,457	12,587	4,998
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	24,649	-3,496	-7,850	-5,076	7,096	141
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	9,962	-3	1,891	2,838	2,054	2,093
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	56,18,986	-5,946	3,84,766	4,11,017	7,22,187	7,41,394
		(-0.1)	(8.6)	(7.9)	(17.4)	(15.2)
मांग	5,66,892	-5,788	11,674	-74,814	1,21,951	-90,392
मीयादी	50,52,094	-158	3,73,092	4,85,830	6,00,235	8,31,786
उधार ⁽³⁾	1,73,087	5,897	9,947	41,746	13,489	58,862
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,56,507	-8,008	44,795	14,702	64,023	-17,708
रिजर्व बैंक से उधार	1,068	-2,256	4,052	-3,963	4,094	-3,025
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	4,10,190	45,169	-1,266	60,681	70,443	1,04,489
पास में नकदी	39,761	702	5,388	9,415	4,679	8,795
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,70,429	44,467	-6,654	51,266	65,764	95,693
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	58,041	-71	-16,207	1,904	-99	11,828
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	16,135	-6,542	-802	-471	9,420	-731
बैंकों को अग्रिम	5,281	-3,147	-5,412	-7,287	2,555	801
अन्य आस्तियां	70,069	-3,667	9,634	995	30,246	15,971
निवेश⁽⁵⁾	17,06,649	-28,129	1,18,961	2,05,030	1,48,313	2,02,936
		(-1.6)	(8.6)	(13.7)	(10.9)	(13.5)
सरकारी प्रतिभूतियों में	17,02,613	-28,166	1,20,061	2,05,465	1,50,796	2,04,157
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,036	37	-1,100	-435	-2,483	-1,221
बैंक ऋण	41,50,520	1,922	2,34,711	2,08,437	6,11,234	6,71,021
		(—)	(7.2)	(5.3)	(21.3)	(19.3)
खाद्य ऋण	68,922	5,607	-1,275	4,639	11,202	21,707
खाद्येतर ऋण	40,81,598	-3,685	2,35,985	2,03,798	6,00,031	6,49,314
ऋण, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	39,98,033	-201	2,35,965	2,04,026	5,90,589	6,39,910
देशी बिल - खरीदे गए	13,112	-230	-1,865	-332	235	2,963
भुनाए गए ⁽⁶⁾	80,429	191	1994	563	14,171	16,217
विदेशी बिल - खरीदे गए	19,440	588	674	857	822	2,633
भुनाए गए	39,506	1,575	-2,058	3,323	5,415	9,298
नकद-जमा अनुपात	7.30					
निवेश-जमा अनुपात	30.37					
ऋण-जमा अनुपात	73.87					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिज्म बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांख्यिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	22 अक्टूबर	16 सितम्बर	23 सितम्बर	30 सितम्बर	7 अक्टूबर	14 अक्टूबर	21 अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	7.50/8.50	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	7.00/8.00	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) ⁽⁴⁾	6.50	8.03	8.25	8.27	8.00	8.27	8.26

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बीचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2011-2012			2010-2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2)-(1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5)-(4)
	2011			2010		
	25 मार्च	21 अक्तूबर		26 मार्च	22 अक्तूबर	
	1	2	3	4	5	6
1. बैंक ऋण	39,42,083	41,50,520	2,08,437 (5.3)	32,44,788	34,79,499	2,34,711 (7.2)
क. खाद्य ऋण	64,283	68,922	4,639	48,489	47,215	-1,275
ख. खाद्येतर ऋण	38,77,800	40,81,598	2,03,798 (5.3)	31,96,299	34,32,284	2,35,985 (7.4)
2. निवेश	1,47,601	1,69,903	22,302	1,18,071	1,51,198	33,127
क. वाणिज्यिक पत्र	12,309	22,447	10,138	25,188	40,760	15,572
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	41,316	38,751	-2,565	30,106	34,282	4,175
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	8,965	8,238	-727	4,625	7,125	2,500
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	30,513	-1,838	25,481	27,157	1,675
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	93,975	1,08,705	14,730	62,777	76,156	13,380
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,946	34,729	6,783	22,710	25,493	2,784
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	73,976	7,946	40,067	50,663	10,596
3. कुल (1+2)	40,25,401	42,51,501	2,26,100 (5.6)	33,14,370	35,83,482	2,69,112 (8.1)
ज्ञापन मर्दे :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	47,603	63,936	16,333	52,887	49,521	-3,366
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	31,296	34,681	3,385	32,597	28,908	-3,689
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	45,615	41,364	-4,250	30,902	37,825	6,923

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें – हाजिर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+)/ ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	24 अक्तू.	25 अक्तू.	26 अक्तू.+	27 अक्तू.+	28 अक्तू.	24 अक्तू.	25 अक्तू.	26 अक्तू.+	27 अक्तू.+	28 अक्तू.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	49.8745	49.6598			48.8210	—	-10.67			-8.87
यूरो	69.5263	69.1510			69.2853	—	-9.86			-11.15
फेडरल की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर { खरीद	49.8400	49.6650			48.8300	—	-10.70			-8.90
{ बिक्री	49.8500	49.6750			48.8400	—	-10.70			-8.90
पौंड { खरीद	79.6850	79.3950			78.5775	—	-11.95			-10.44
स्टर्लिंग { बिक्री	79.7150	79.4250			78.5975	—	-11.96			-10.43
यूरो { खरीद	69.4775	69.1325			69.2600	—	-9.87			-11.13
{ बिक्री	69.4950	69.1575			69.2850	—	-9.86			-11.11
100 येन { खरीद	65.2775	65.2725			64.3675	—	-15.87			-15.19
{ बिक्री	65.3350	65.3025			64.3900	—	-15.88			-15.18
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	6.14	6.28			6.64					
3 - माह	5.29	5.24			5.49					
6 - माह	4.21	4.15			4.55					

+ : बाजार बंद।

— पिछले वर्ष के तदनुसूची दिन बाजार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया				निम्न की तुलना में घट-बढ़							
	2011		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	21 अक्टू. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम ₃	64,99,548	69,58,664	-4,158	-0.1	4,77,770	8.5	4,59,116	7.1	8,97,619	17.3	8,78,162	14.4
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,197	9,52,190	2,958	0.3	73,248	9.5	37,993	4.2	1,27,791	17.9	1,11,449	13.3
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,660	6,46,007	-5,912	-0.9	11,726	1.6	-71,652	-10.0	1,34,211	22.5	-83,689	-11.5
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	48,63,979	53,59,307	3	—	3,92,638	9.5	4,95,327	10.2	6,35,625	16.4	8,53,239	18.9
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,713	1,160	-1,207	-51.0	158	4.1	-2,552	-68.7	-9	-0.2	-2,837	-71.0
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,82,771	21,81,908	23,935	1.1	1,25,074	7.5	1,99,137	10.0	3,30,197	22.6	3,87,648	21.6
(क) रिजर्व बैंक	3,96,555	3,94,737	52,612	—	-5,935	—	-1,818	—	1,61,928	—	1,89,086	—
(ख) अन्य बैंक	15,86,216	17,87,171	-28,677	-1.6	1,31,009	9.0	2,00,955	12.7	1,68,269	11.8	1,98,562	12.5
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क +ख)	42,35,406	44,47,127	1,374	—	2,61,802	7.5	2,11,720	5.0	6,46,075	20.8	6,93,916	18.5
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,878	555	-	149	-	-286	-	-5,013	-	401	-
(ख) अन्य बैंक	42,33,242	44,45,249	819	—	2,61,652	7.5	2,12,007	5.0	6,51,088	21.0	6,93,516	18.5
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,93,327	15,98,117	56,051	3.6	65,361	5.1	2,04,790	14.7	972	0.1	2,51,288	18.7
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,724	13,312	—	—	883	7.8	587	4.6	1,421	13.2	1,159	9.5
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं जिनमें से :	11,24,680	12,81,800	85,518	7.1	-24,652	-2.9	1,57,119	14.0	81,046	10.9	4,55,849	55.2
रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	3,68,274	5,78,538	59,720	11.5	31,578	10.5	2,10,263	57.1	-54,367	-14.0	2,45,345	73.6

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	28 अक्तू. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,76,881	13,85,212	-3,979	-0.3	91,298	7.9	8,330	0.6	2,50,225	25.1	1,38,228	11.1
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,659	10,12,140	14,790	1.5	74,495	9.3	62,481	6.6	1,37,328	18.6	1,38,097	15.8
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	3,71,661	-19,020	-4.9	15,974	4.5	-51,849	-12.2	1,12,002	43.7	3,388	0.9
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,713	1,411	250	21.6	829	21.6	-2,302	-62.0	896	23.7	-3,257	-69.8
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,96,555	3,91,984	-2,753		67,429		-4,571		2,09,275		1,12,970	
	3,94,035	3,91,681	-2,665		66,036		-2,353		2,08,006		1,14,065	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को	7,324	5,657	2,677		4,717		-1,667		1,160		-1,558	
(नाबार्ड सहित)	5,159	3,779	2,677		4,473		-1,381		5,622		-1,863	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	15,30,763	-25,937	-1.7	64,199	5.2	2,02,210	15.2	-8,467	-0.6	2,34,615	18.1
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,724	13,312	—	—	883	7.8	587	4.6	1,421	13.2	1,159	9.5
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	3,68,274	5,56,503	-22,035	-3.8	45,930	15.2	1,88,229	51.1	-46,836	-11.9	2,08,958	60.1

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(कोड़ ₹)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) / कमी(-) (5-10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24 अक्तूबर 2011	1	31	98.285	31	98,285	8.25	—	—	—	—	—	98,285	—	–98,285
25 अक्तूबर 2011	3	36	1.09.230	36	1,09,230	8.25	1	175	1	175	7.50	1,09,055	—	–1,09,055
28 अक्तूबर 2011	3	21	59,345	21	59,345	8.50	1	900	1	900	7.50	58,445	—	–58,445

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा ।

'—' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(कोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 5 जन.	7 जन.	4,000	85	10,008	500	40	4,000	500	—	4,500	98.27	7.1027	62,859
2011-2012 6 अप्रैल	8 अप्रैल	4,000	78	14,105	—	35	4,000	—	—	4,000	98.26	7.1443	69,845
6 जुलाई	8 जुलाई	7,000	94	27,621	250	29	7,000	250	—	7,250	98.00	8.1857	1,21,860
25 अक्तू.	28 अक्तू.	4,000	71	13,337	504	25	4,000	504	—	4,504	97.89	8.6456	1,05,230
182-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 5 जन.	7 जन.	1,500	50	5,332	—	14	1,500	—	—	1,500	96.53	7.2954	20,500
2011-2012 13 अप्रैल	15 अप्रैल	2,000	74	7,744	1,500	25	2,000	1,500	—	3,500	96.43	7.4462	24,501
6 जुलाई	8 जुलाई	3,000	75	7,178	—	44	3,000	—	—	3,000	96.04	8.2692	34,251
25 अक्तू.	28 अक्तू.	4,000	57	9,325	—	32	4,000	—	—	4,000	95.86	8.7050	41,850
364-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 12 जन.	14 जन.	1,000	48	3,969	—	8	1,000	—	—	1,000	93.08	7.5012	42,610
2011-2012 6 अप्रैल	8 अप्रैल	2,000	80	8,350	—	31	2,000	—	—	2,000	93.02	7.5476	42,456
13 जुलाई	15 जुलाई	3,000	107	13,141	—	20	3,000	—	—	3,000	92.41	8.2360	53,308
19 अक्तू.	21 अक्तू.	4,000	85	10,695	5	31	4,000	5	—	4,005	92.05	8.6840	67,166

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(कोड़ ₹)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	22 अक्टू.	23 अक्टू.	24 अक्टू.	25 अक्टू.	26 अक्टू.	27 अक्टू.	28 अक्टू.	29 अक्टू.	30 अक्टू.	31 अक्टू.	1 नव.	2 नव.	3 नव.	4 नव.
4 नवम्बर 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधी अपेक्षाएँ	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242	3,59,242
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,74,628	3,74,628	3,89,386	3,96,250	3,95,710	3,96,892	3,51,022							

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(कोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1		2		
8 अक्टूबर 2010		3,44,158		38,285	6.36-8.26
14 जनवरी 2011		3,71,881		44,019	7.18-9.82
8 अप्रैल 2011		4,44,525		61,292	8.00-11.70
15 जुलाई 2011		4,05,973		28,431	8.20-10.10
9 सितम्बर 2011		3,86,470		41,608	8.70-10.25
23 सितम्बर 2011		3,83,472		66,156	8.75-10.05

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50-10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60-11.95
15 अप्रैल 2011	1,05,518	30,840	7.15-12.30
15 जुलाई 2011	1,28,347	29,818	8.10-13.25
31 अगस्त 2011	1,48,812	21,797	7.67-14.50
15 सितम्बर 2011	1,59,701	31,045	8.47-14.00

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास ।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		16 अक्टूबर	20 अगस्त *	15 अक्टूबर #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	183.0	200.2	204.5	0.3	0.9	8.5	11.7
(i) फल और सब्जियां	3.84	174.0	195.9	206.2	0.3	5.9	23.5	18.5
ईंधन और विद्युत	14.91	148.3	166.8	170.1	—	0.4	7.7	14.7
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* : अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

प्रोट : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	28 अक्टूबर	24 अक्टूबर	25 अक्टूबर	26 अक्टूबर	27 अक्टूबर+	28 अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	19941.04	16939.28	17254.86	17288.83		17804.80
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	5987.70	5098.35	5191.60	5201.80		5360.70

+ बाजार बंद।

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	16 सितम्बर 2011	23 सितम्बर 2011	30 सितम्बर 2011	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	12,370	11,605	10,070	9,823	12,907	8,972	12,550
ख) दिए गए ऋण	13,188	12,723	10,522	10,681	13,645	9,467	12,985
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	818	1,118	452	858	738	495	435
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	—	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	13,188	12,723	10,522	10,681	13,645	9,467	12,985
ख) दिए गए ऋण	13,188	12,723	10,522	10,681	13,645	9,467	12,985

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	23 सितम्बर 2011	30 सितम्बर 2011	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,10,268	88,685	83,341	1,03,415	1,10,688	54,170
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,670	540	2,247	1,716	2,143	456
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	11,650	10,331	9,259	6,413	5,256	4,966
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	420	1,370	2,090	1,991	1,184	1,452
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,468	1,264	2,960	2,402	3,106	988
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	233	3	379	89	422	536

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भारि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई			एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
10 अक्टूबर 2011	1,640	1,219	407	119	328	297	5,228	3,649	451	2,947	638	51
11 अक्टूबर 2011	2,299	1,515	749	322	187	192	7,439	6,065	415	3,560	1,824	168
12 अक्टूबर 2011	2,858	1,567	840	168	342	266	6,400	6,782	651	3,807	1,391	95
13 अक्टूबर 2011	2,329	1,389	780	158	340	272	6,208	5,101	776	2,927	1,709	96
14 अक्टूबर 2011	2,431	1,252	660	114	311	316	6,210	6,468	675	3,633	1,296	121
बिक्री												
10 अक्टूबर 2011	1,637	1,689	385	110	318	280	5,148	3,756	481	2,944	653	63
11 अक्टूबर 2011	2,672	1,448	528	321	201	159	7,263	6,257	405	3,452	1,890	171
12 अक्टूबर 2011	3,025	1,551	469	167	307	272	6,293	7,730	749	3,861	1,515	65
13 अक्टूबर 2011	2,577	1,544	429	160	389	194	6,290	5,380	776	2,926	1,745	87
14 अक्टूबर 2011	2,500	1,693	577	114	316	289	6,025	7,150	903	3,659	1,272	128

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	23 सितम्बर 2011	30 सितम्बर 2011 @	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011
	1	2	3	4	5	6
राशि	767.17	363.36	467.49	452.54	1,326.51	294.62

@ : 30 सितम्बर 2011 को बाजार बंद रहने के कारण आंकड़े 29 सितम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह के हैं।

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	28 अक्टूबर 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (1+2+3+4)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
	1	2	3	4			
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	36,624	14,822	17,383	68,828	748	25,410
राज्य सरकारें	60,670	26,229	900	419	88,218	-8,074	-23,271
अन्य	4,117	42,377	26,128	49,364	1,21,987	-2,706	38,589

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार — 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (28 अक्टूबर 2011 तक)	2010-2011 (29 अक्टूबर 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (28 अक्टूबर 2011 तक)	2010-2011 (29 अक्टूबर 2010 तक)	2010-2011
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	2,78,000	3,28,000	4,37,000	2,15,419	2,42,818	3,25,414
2. भारिबैंक के खुला बाजार परिचालन* : बिक्री	4,839	5,333	11,575			
खरीद	4,854	5,321	78,799			

* भारि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	21 अक्टूबर 2011 को समाप्त सप्ताह			28 अक्टूबर 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	—	—	—	—	—	—
2012-13	1,133	8.4428	8.6174	1,008	8.6143	8.7134
2013-14	—	—	—	—	—	—
2014-15	86	8.5415	8.6432	—	—	—
2015-16	16	8.5751	8.5804	75	8.5024	9.1849
2016-17	990	8.7131	8.7676	267	8.6901	8.7787
2017-18	36	8.7457	8.7457	5	8.8014	8.8014
2018-19	5,175	8.7263	8.8494	1,749	8.6779	8.8298
2019-20	—	—	—	—	—	—
2020-21	11	9.2897	9.2914	—	—	—
2021 से आगे	47,895	8.7217	9.0869	23,981	8.6711	9.0008
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,071	8.8668	9.0900	228	8.9594	9.0586
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	596	8.1500	8.4287	315	8.3000	8.4950
ख) 15 - 91 दिन	2,927	8.2500	8.7504	2,303	8.3499	8.6600
ग) 92 - 182 दिन	173	8.4998	8.6001	591	8.5489	8.7050
घ) 183 - 364 दिन	1,077	8.5233	8.6840	494	8.5557	8.6500
II. भा.रि.बैं. * : बिक्री	230			248		
खरीद	192			288 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	50,861	6.85 (1)	9.35 (90)	28,248	7.00 (1)	10.25 (17)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	96	8.15 (1)	8.25 (3)	35	8.30 (1)	9.00 (15)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	24,055	6.75 (1)	8.65 (3)	10,047	8.10 (1)	8.50 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	5,233	8.10 (1)	8.30 (3)	2,237	8.20 (1)	8.50 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	11,809	8.10 (1)	8.50 (3)	7,054	8.20 (1)	8.50 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	3,08,720	—	8.25	2,66,860	8.25	8.50
: रिवर्स रिपो !	1,305	—	7.25	1,075	7.25	7.50

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

✱ कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बाँड (तेल बाँड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹800 और ₹2,000 तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ राय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ राय।